

ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION FOR THE MONTH OF JANUARY 2025

MEMBERSHIP UPDATES

Total Membership strength of CMAI as on 31st January 2025 stood at 4716 and 759 affiliated Members from 3 Regional Associations thus aggregating to a Total of 5475 Members.

CMAI on-boarded 51 New Companies as Members in the month of January 2025 as under :

Region	Life	Primary	Associate	Agent / Distributor	Retailer	Organisation	Total
Mumbai	-	7	5	1	-	-	13
Western	-	5	6	1	1	-	13
Southern	-	3	-	1	-	-	4
Northern	-	10	3	3	-	-	16
Eastern	-	2	-	1	1	-	4
Central	-	-	-	1	-	-	1
Total	-	27	14	8	2	-	51

There are 410 Members whose Subscription for the current Financial Year is still pending. We once again request these Members to send their Renewals at the earliest to avoid uninterrupted Services.

Members can Pay their Renewals through the following Link or NEFT or by a Crossed Cheque.
https://cmai.in/membership_form/public/members/login

The Bank Details of the Association for NEFT/RTGS are as under :-

Name of Beneficiary: **CMAI Membership A/c.**

Bank Name: **HDFC Bank**

Account Number: **00051450000092**

IFSC CODE: **HDFC0000005**

SURAT OFFICE

The Office at Surat has generated 1 New Member during the Month of January 2025

NORTHERN REGIONAL OFFICE

The Northern Regional Office of the Association has generated 5 New Members and forwarded 1 Renewal during the month of January 2025.

.....2/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

: 2 :

SOUTHERN REGIONAL OFFICE

The Southern Regional Office of the Association has generated 1 New Member during the month of January 2025.

CONCILIATION & ARBITRATION SUMMARY FOR THE PERIOD DECEMBER 2024 & JANUARY 2025

MIS FOR THE PERIOD OF	DECEMBER' 2024		JANUARY' 2025	
	No. of Files	Amount	No. of Files	Amount
Opening Total Cases pending resolution	1847	₹ 41,47,44,776	1865	₹ 41,61,32,037
New Complaints	26	₹ 47,27,367	35	₹ 2,19,76,779
Complaints resolved fully in the Month	8	₹ 1,93,828	10	₹ 9,88,220
Amount Collected in the Month		₹ 31,46,278		₹ 17,99,040
Total Cases pending resolution as on month end	1865	₹ 41,61,32,037	1890	₹ 43,53,21,556
Active Cases in Caution List	1401	₹ 30,40,70,990	1401	₹ 30,35,89,394
Active Cases pending resolution as on month end	464	₹ 11,20,61,047	489	₹ 13,17,32,162
Current Payment	34	₹ 21,94,167	28	₹ 13,50,437
Post Dated Cheque Received	4	₹ 9,52,111	6	₹ 4,48,603
Amount Collected in the Month	38	₹ 31,46,278	34	₹ 17,99,040

...3/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

:3:

MEETINGS



Mr Santosh Katariya, President , Mr Ankur Gadia Vice President and Dr Ajoy Bhattacharya, Regional Chairman, Gujarat Regional Committee met Shri Harsh Sanghavi, Hon'ble Minister of Home, Industry & Culture, Govt of Gujarat on 2nd January 2025 at Gandhinagar in connection with hike in GST rate. Mr Sanghavi also arranged a meeting with Shri Kanubhai Desai, Hon'be Minister of Finance Govt of Gujarat immediately. The Office Bearers presented the facts and figures to the Hon' ble Ministers with CMAI's recommendations on the issue . Both the Ministers expressed their whole hearted support and directed the concerned officers in Ministry of Gujarat to make a note of the issues and send them to the Central Govt for consideration.

The Office Bearers also met Mr. Rajiv Topno, Additional Commissioner GST, who also agreed to forward our recommendations to the concerned authorities at Centre.

It was a significant step forward, and the Office Bearers are optimistic about positive outcomes in the coming days. This development could prove to be immensely helpful for any decisions that need to be taken on this matter.

Dr Ajoy Bhattacharya, played his instrumental role in coordinating all the Meetings and Appointments.

....4/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



In a unique initiative, CMAI organised a meeting on 9th January 2025 in Mumbai of all the leading Trade Associations connected with the Domestic Garment Sector. These "GROUP OF ASSOCIATIONS " collectively deliberated and under ONE INDUSTRY ONE VOICE prepared a charter of recommendations for submission to Government of India. The key takeaways encompassed measures to boost the apparel trade, drive sustainable growth, and address critical industry needs. Some of the prominent Trade Associations who attended were:

- Garment Exporters Association of Rajasthan (GEAR) - Jaipur
- Bangalore Apparel Manufacturers Association (BAMA) - Bengaluru
- South India Garment Association (SIGA) - Bengaluru
- Knitwear & Apparel Manufacturers Association of Ludhiana (KAMAL) - Ludhiana
- Federation of Surat Textile Traders Association (FOSTTA) - Surat
- Indore Readymade Vastra Vyapari Sangh (IRVVS) - Madhya Pradesh
- Gujarat Garment Manufacturing Association (GGMA) – Ahmedabad
- Garment Manufacturers & Wholesalers Association (GMWA) Hyderabad
- Sholapur Garment Manufacturers Association (SGMA) - Maharashtra
- The Federation of Hosiery Manufacturers' Association of India (FOHMA) – Kolkata
- Tirupur Exporters Association (TEA) – Tirupur
- Garment Vyapar Sangh, (GVS) – Surat
- Karnataka Hosiery Garment Association (KHAGA) - Bengaluru
- Karnataka Inner wear Association (KIA)- Bengaluru
- Knitwear Club- Ludhiana
- East India Garment Manufacturers and Exporters Federation (EIGMEF) -Kolkata

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

: 5 :

19 Garment Trade Associations sent a joint Representation on 20th January 2025 to the Hon'ble Finance Minister , Hon'ble Textile Minister, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Hon'ble Finance Ministers of all the States, Group of Ministers on the GST Panel on the Proposed hike in the GST Rate unitedly to show - One Industry, One Voice: Group of Garment Associations across the Country requesting the Group of Ministers (GoM) to abandon any GST rate revision and maintain status quo by continuing with the existing rates instead of creating disruption of Domestic Garment business.

Press Meet by The Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) on Apparel Industry Recommendations to Government of India .

CMAI Invited the Print-Media on 9th January 2025 at the Office of the Association on the burning issue of GST . During the meet, CMAI presented key recommendations that have been unanimously prepared and submitted by all leading Regional Apparel Industry Associations across India to the Government of India These recommendations aim to support and boost the apparel industry, driving sustainable growth and addressing critical industry needs.

<https://taxo.online/latest-news/13-01-2025-garment-trade-associations-urge-gom-to-abandon-gst-rate-modification-proposal/#:~:text=In%20a%20landmark%20meeting%2C%20they,cent%20and%2012%20per%20cent.>

<https://www.newkerala.com/news/o/garment-trade-associations-urge-gom-abandon-gst-rate-modification-684>

<https://www.indian-apparel.com/one-industry-one-voice-garment-trade-associations-across-india-want-group-of-ministers-gom-to-abandon-proposal-to-modify-gst-rates/>

<https://news.webindia123.com/news/Articles/Business/20250111/4275411.html>
<https://revealinside.in/cm-ai-and-garment-associations>

<https://taxo.online/latest-news/13-01-2025-garment-trade-associations-urge-gom-to-abandon-gst-rate-modification-proposal/#:~:text=In%20a%20landmark%20meeting%2C%20they,cent%20and%2012%20per%20cent.>

<https://www.apparelviews.com/one-industry-one-voice-garment-trade-associations-across-india-want-group-of-ministers-gom-to-abandon-proposal-to-modify-gst-rates>

<https://www.tripurastarnews.com/one-industry-one-voice-garment-trade-associations-across-india-want-group-of-ministers-gom-to-abandon-proposal-to-modify-gst-rates/>

<https://www.tribuneindia.com/news/business/garment-trade-associations-urge-gom-to-abandon-gst-rate-modification-proposal/>

<https://www.businessworld.in/article/indian-retail-industry-bracing-to-keep-ship-afloat-amid-troubled-waters-544188>

<https://www.dfupublications.com/news/apparel/cm-ai-leading-associations-unite-to-address-gst-and-other-critical-issues-in-garments>

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cm-ai.in • Website : www.cm-ai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

<https://www.aninews.in/news/business/garment-trade-associations-urge-gom-to-abandon-gst-rate-modification-proposal20250111152053/#:~:text=In%20a%20landmark%20meeting%2C%20they%20passed%20a%20unanimous,of%205%20per%20cent%20and%2012%20per%20cent.>



On 8th January a presentation on VisioNxt - a Fashion Forecast initiative by National Institute of Fashion Technology (NIFT) - to the Industry under the Ministry of Textiles, Govt of India was held. The meeting was chaired by Smt. Roop Rashi, IA & AS , Textile Commissioner. Mr Rahul Mehta, Chief Mentor, CMAI, was the Guest of Honour. Several leading members of the Domestic garment Industry were present at the meet, including representatives of the Aditya Birla Group, Reliance amongst others. Mr Rahul Mehta provided very useful insights into the Industry's expectations from VisioNxt, and urged NIFT to ensure that the initiative was relevant for the typical MSME Members of the Garment Industry.

It also offers various academic courses, workshops, and trend-related consulting services. By combining artificial intelligence (AI) and emotional intelligence (EI), VisioNxt has developed an indigenous forecasting system that caters specifically to the unique dynamics of the Indian market. Its core mission is to map the diversity and complexity of India's fashion landscape, empowering businesses, designers, brands, retailers, artisans, and weavers to anticipate and respond to the evolving needs of the Indian consumer. India's entry into the trend forecasting space brings several advantages: it reduces reliance on global forecasting agencies, offers unique insights into Indian fashion consumers, integrates India's strengths in information technology with textiles, and merges artificial and human intelligence. VisioNxt positions India as a global leader in trend forecasting, enhancing the visibility of Indian fashion language and identity while reducing reliance on international trend agencies.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

EVENTS

80TH NATIONAL GARMENT FAIR

CMAI's 80th NGF 2025: India's leading Apparel Fair opens with focus on growth



CMAI's 80th National Garment Fair (NGF) 2025 Inaugurated by India's leading Value Retailer Shri Ram Chandra Agarwal of V2 Retail Ltd.

The 80th edition of National Garment Fair (NGF) 2025, Spring-Summer edition was held from January 15 to 17, 2025 at Bombay Exhibition Centre, Mumbai was inaugurated by India's leading Value Retailer, Shri Ram Chandra Agarwal, Chairman & Managing Director of V2 Retail Ltd. They are currently on an exciting expansion path which is perhaps the fastest in the industry having 150+ stores across 112 cities in India with more than 10. lac sq. ft. of retail space in just about a decade.

Spanning a remarkable 7 lakh square feet of exhibition space, 80th NGF 2025, features over 1220 apparel brands and 1120 stalls, showcasing the latest Spring-Summer collections across men's, women's, and kids wear. This grand-scale trade fair is exemplary as it fosters invaluable B2B connections, providing a unique opportunity for industry players to collaborate, expand their reach, and contribute to the dynamic growth of India's domestic retail market.

.....8/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA


901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat


Follow us:     

: 8 :

The event witnessed remarkable footfalls, with more than **21500** trade visitors including national and regional retailers, distributors, and wholesalers, driving strong business engagements that signals a promising retail season ahead. The overwhelming response and robust business activity at the 80th NGF further reinforces CMAI's pivotal role in shaping the Indian apparel market, providing a comprehensive platform for sourcing, networking, collaborating, and exploring growth opportunities.

On the Second day of the Fair, the event was graced by the **Hon'ble Shri Sanjay Savkare, Minister of Textiles, Government of Maharashtra** to encourage the Apparel Industry and assures policy and financial assistance support.



  
THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA



WELCOMES
SHRI. SANJAY SAVKARE
HON'BLE MINISTER OF TEXTILES
GOVT OF MAHARASHTRA

16TH JANUARY 2025


BOMBAY EXHIBITION CENTER
NSE COMPLEX, GOREGAON (EAST),
MUMBAI - 400063.

During his visit to the 80th NGF organised by CMAI, **Hon'ble Shri Sanjay Savkare, Minister of Textiles, Government of Maharashtra**, said, "In this 3-day trade fair organised by CMAI, exhibitors of branded clothing manufacturers from all over India have gathered to develop business

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

: 9 :

for the next four months. Buyers and sellers from different states are here to do the business, and these three days are expected to generate a significant turnover.”



<https://textilevaluechain.in/news-insights/industry-cluster-news/v2-retails-ram-chandra-agarwal-inaugurates-cmais-80th-ngf>

https://infashionbusiness.com/home/news_details/4721/15

<https://indiantextilejournal.com/80th-national-garment-fair-2025-boosts-apparel-outlook/>

<https://www.indian-apparel.com/cmais-80th-ngf-spring-summer-edition-boosts-a-positive-outlook-for-the-industry/>

<https://www.fibre2fashion.com/interviews/face2face/government-of-maharashtra/sanjay-savkare/14055/>

<https://www.indian-apparel.com/cmais-80th-ngf-2025-inaugurated-by-indias-leading-value-retailer-ram-chandra/>

<https://www.loktej.com/article/120252/surat-cmai-organizes-roadshow-for-fab-show-2025-emphasizes-on>

<https://www.dfupublications.com/news/apparel/cmai-s-ngf-2025-india-s-leading-apparel-fair-opens-with-focus-on-growth>

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

<https://www.tripurastarnews.com/cmairs-80th-national-garment-fair-ngf-2025-inaugurated-by-indias-leading-value-retailer-shri-ram-chandra-agarwal-of-v2-retail-ltd/>

https://infashionbusiness.com/home/news_details/4694/11

<https://indiantextilejournal.com/ram-chandra-agarwal-of-v2-retail-inaugurates-cmais-80th-national-garment-fair/>

<https://www.businessworld.in/article/export-push-pledge-boost-msme-aid-top-apparel-sectors-budget-wishlist-545316>

<https://dfupublications.com/news/apparel/cmair-s-national-garment-fair-2025-wraps-up-on-a-high-note-boosting-india-s-apparel-industry>

<https://up18news.com/cmairs-80th-national-garment-fair-2025-ngf-spring-summer-edition-boosts-a-positive-outlook-for-the-apparel-industry/>

<https://www.tripurastarnews.com/international-expert-on-business-and-human-rights-interacts-with-apparel-industry-on-responsible-business-conduct/>

<https://textilesouthasia.com/2025/01/23/international-expert-on-business/>

<https://www.tripurastarnews.com/cmairs-80th-national-garment-fair-2025-ngf-spring-summer-edition-boosts-a-positive-outlook-for-the-apparel-industry/>

<https://www.5dariyanews.com/news/449174-International-Expert-On-Business-And-Human-Rights-Interacts-With-Apparel-Industry-On-Responsible-Bus>

BHARAT TEX 2025

Bharat Tex 2025 is being organized by Textile Export Promotion Councils (EPCs) which includes Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) and supported by the Ministry of Textiles, Government of India.

This mega event (2nd Edition) is set to take place from February 14 to 17, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi and from February 12 to 15, 2025 at India Expo Centre and Mart, Greater Noida.

Bharat Tex 2025 brings together industry experts, manufacturers, sellers, buyers, designers and enthusiasts, from around the world under one platform. This is the largest and most significant extravaganza for the Textile sector and will display the entire value chain - Apparel, Home Furnishings and Floor Coverings, Fibbers, Yarns, Wool, Threads, Fabrics, Carpets, Silk, Textiles based Handicrafts, Handloom, Synthetic, Rayon and Cotton Textiles, Jute, Woollen Garments, Technical Textiles & Machinery.

The Association has so far forwarded Participation of 112 Exporters covering an Area of 2547 SQM besides 13 Brands covering an Area of 980 Sqm which will be set up exclusively for CMAI as “ Brands of India Pavilion “ (Total 125 Exhibitors Covering an Area of 3518 SQM.)

.....11 /-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmair.in • Website : www.cmair.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

:11 :

5TH EDITION OF CMAI FAB SHOW

The Association will be Organising the 5th Edition of CAI FAB Show on 21st, 22nd and 23rd April 2025 at Bombay Exhibition Centre, NESCO Complex, Goregaon (East) Mumbai 400063. The Show is being supported by Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry (SGCCI)

The Booking of Stalls commenced on 2nd December 2024. As on 31st January 2025, the Association was able to sell 96 Stalls Covering an Area of 2715 SQM as against a Total Saleable Stall of 204 (7098 SQM Area) 58 Stalls (1819 SQM) are on the pipeline for which the Payments are awaited. 16 stalls have been blocked covering an area of 590 SQM thus leaving 39 Stalls (2058 SQM) yet to be sold.



Whilst the Association has received Confirmation from 46 Stalls, Covering an Area of 1216 SQM for which Payments still to be received , 25 Stalls (916 SQM Area) are in the pipeline thus aggregating a Total Stalls of 112 Stalls Covering an Area of 3329 SQM, leaving a Balance of 91 Stalls Covering an Area of 3566 SQM . The Marketing / Selling of Stalls are going in full swing.

The Association is proposed to Introduce Mills & Sustainability Pavilion, Knowledge Sessions and Fashion Shows in this Edition.

The Association also Organised a Road Show in Surat on 23rd January 2025 with the Support of Federation of Surat Textile Traders Association (FOSTTA) – Surat. The Event was attended by 68 Fabric Manufacturers and well covered by the Media. The President of SGCCI was also present in the Show.

...12/-

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



સુરતમાં સીએમએઆઈનો રોડ-શો : ગારમેન્ટ ઉદ્યોગને નવી દિશા મળશે



અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી સુરત, તા. ૧૪ જાન્યુઆરી ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા(સીએમએઆઈ)એ ફોસ્ટા કચેરીના બોર્ડ રૂમમાં રોડ-શો યોજ્યો હતો. સીએમએઆઈના આગામી પ્રદર્શનમાં સુરતના એસજીસીસીઆઈ પેવેલીયનમાં ૫૦થી વધુ પ્રદર્શનકારીઓ સુરતના ગારમેન્ટને પ્રદર્શિત કરશે.

સીએમએઆઈના ગુજરાત ચેપ્ટરના ચેરમેન અજય ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, સીએમએઆઈના ફેબ-શોમાં કોર્પોરેટ બિઝનેસ, એક્સપોર્ટ કલ્ચર, બાયર્સ-સેલર્સ નેટવર્કિંગ મીટિંગ યોજાશે. આ ફેબ-શોમાં કરોડોના ઓર્ડર સ્થળ પર

જ પ્રદર્શનકારીઓને મળે છે. સુરતના ગારમેન્ટ ઉદ્યોગને આ ફેબ-શોથી નવી દિશા મળી રહેશે.

દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બરના પ્રમુખ વિજય મેવાલાએ કહ્યું હતું કે, ફેબ-શોમાં ભાગ લેવા માટે તારીખ જાહેર થયાના ગણતરીના કલાકોમાં બુકિંગ થઈ જાય છે. જે દર્શાવે છે કે આ ફેબ-શો સુરત સહિત દેશભરના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે કેટલો મહત્વનો છે. અનેક પ્રદર્શનકારીઓને વેઈટિંગ કરવું પડે છે. સુરત કાપડઉદ્યોગ ગારમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી પર ધ્યાન આપવા ઇચ્છે તો આ ફેબ-શો મહત્વનું પ્લેટફોર્મ બની રહે તે વા છે. સુરતના એસજીસીસીઆઈ પેવેલીયનમાં ૪૦ થી ૫૦ પ્રદર્શનકારીઓ ભાગ લેશે.

...13/-



સુરતમાં સીએમએઆઈનો રોડ-શો : ગારમેન્ટ ઉદ્યોગને નવી દિશા મળશે



અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી

સુરત, તા. ૧૪ જાન્યુઆરી
ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચર્સ એસોસિએશન
ઓફ ઇન્ડિયા(સીએમએઆઈ)એ ફોસ્ટા ક્યેરીના
બોર્ડ રૂમમાં રોડ-શો યોજ્યો હતો. સીએમએઆઈના
આગામી પ્રદર્શનમાં સુરતના એસજીસીસીઆઈ
પેવેલીયનમાં ૫૦થી વધુ પ્રદર્શનકારીઓ સુરતના
ગારમેન્ટને પ્રદર્શિત કરશે.

સીએમએઆઈના ગુજરાત ચેપ્ટરના
ચેરમેન અજય ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે,
સીએમએઆઈના ફેબ-શોમાં કોર્પોરેટ બિઝનેસ,
એક્સપોર્ટ કલ્ચર, બાયર્સ-સેલર્સ નેટવર્કિંગ મીટિંગ
યોજાશે. આ ફેબ-શોમાં કરોડોના ઓર્ડર સ્થળ પર

જ પ્રદર્શનકારીઓને મળે છે. સુરતના ગારમેન્ટ
ઉદ્યોગને આ ફેબ-શોથી નવી દિશા મળી રહેશે.

દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બરના પ્રમુખ વિજય
મેવાવાલાએ કહ્યું હતું કે, ફેબ-શોમાં ભાગ લેવા
માટે તારીખ જાહેર થયાના ગણતરીના કલાકોમાં
બુકિંગ થઈ જાય છે. જે દર્શાવે છે કે આ ફેબ-શો
સુરત સહિત દેશભરના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે
કેટલો મહત્વનો છે. અનેક પ્રદર્શનકારીઓને વેઈટિંગ
કરવું પડે છે. સુરત કાપડઉદ્યોગ ગારમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી
પર ધ્યાન આપવા ઇચ્છે તો આ ફેબ-શો મહત્વનું
પ્લેટફોર્મ બની રહે તે વા છે. સુરતના
એસજીસીસીઆઈ પેવેલીયનમાં ૪૦ થી ૫૦
પ્રદર્શનકારીઓ ભાગ લેશે.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

MARKET LEARNING UPDATES



International Expert on Business and Human Rights interacts with apparel industry on Responsible Business conduct

**Emphasis on 'Profit with Principles' as the approach to responsible business
Interaction was part of Project SU.RE, an initiative of Ministry of Textiles, Reliance Brands Limited, CMAI and UN in India**

The United Nations in India this week convened an interactive roundtable on Responsible Business Conduct in the Textile and Apparel sector with an international expert on business and human rights and representatives from the apparel industry and UN agencies in India.

The roundtable focused on Indian industry's leadership in driving sustainability in responsible business and its readiness to comply with national and global regulatory changes and due diligence processes.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

: 15 :

Responsible business practices help industry to manage environmental risks, strengthen worker trust, and help industry stay ahead of consumer and regulatory expectations.

Professor Surya Deva of Macquarie University spoke about the need for industry to look at an agenda of profit with principles and the crucial role that businesses play towards communities, environment and the wider planet. He gave an overview of the changing international regulatory landscape and the impact on Indian businesses, given the interconnectedness of global supply chains.

He also believes that business leadership must adapt to this transformation. Businesses are here to make profit and if they make profit, they promote human dignity and development. They provide employment and fair wages, contributing to inclusive growth. But the Business and Human Rights agenda cannot be one-size-fits-all. This is where UN agencies in India can support with pathways that help businesses become responsible.”

Representatives from the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), clothing brands including Tata Trent, Reliance Brands, Peppermint, Spykar, Blackberry, Bonsoir, Fritzberg and La Romani, Lacoste, and exporter Matrix Clothing shared their experience and expertise on driving sustainability in their operations and value chains, as well as challenges related to compliance, especially in the Micro Small Medium Enterprise (MSME) sector.

Mr Rahul Mehta, Chief Mentor stated that there is awareness about sustainability and human rights in businesses, even in small manufacturers. What we need to do is to get the concepts out of seminar rooms and bring them to the real world. It will be difficult and will take time. But we are moving in that direction. We are showing the industry that we can adopt these practices and still stay profitable.

Presenting best practices from Indian industry, Sanjay Rastogi of Tata Trent provided an overview of how they have embedded human rights into their business, including the value chain, frameworks and assurance mechanisms.

UN Resident Coordinator in India Shombi Sharp underlined the commitment of UN agencies in India towards mainstreaming sustainability and circularity in the textile industry. He said: “Responsible business isn’t just a goal – it’s a strategy – for enterprise resilience, value creation and success in an evolving global market. The UN team in India is already engaging significantly with the textile and apparel sectors, but so much more we can do together, with industry stakeholders such as CMAI.”

The roundtable was part Project SURE or Sustainable Resolution, an initiative of the Ministry of Textiles, Reliance Brands Limited, CMAI and UN in India. The project represents the Indian apparel industry’s largest voluntary commitment to sustainability. This collaboration not only empowers signatories to transform into sustainable brands, but through sharing of best practices, it seeks to reduce the footprint of the sector, both locally and globally.

Aside from his academic work, Professor Deva is also the UN Special Rapporteur on the right to development.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



GOVT OF CHHATTISGARH TO JOIN HANDS WITH CMAI AS A PARTNER STATE

A CMAI Delegation led by Mr Santosh Katariya, President alongwith Mr Naveen Sainani, Hon. Gen. Secretary & Chairman, FAB Show Sub Committee , Mr Rahul Mehta, Chief Mentor attended a Roadshow in Mumbai hosted by the Government of Chhattisgarh.

Later, a closed-door Meeting was held with Shri. Vishnu Deo Sai, Hon'ble Chief Minister of Chhattisgarh and Senior Policy Makers wherein a Proposal to get Associated with CMAI Activities as a Partner State was finalized considering a thriving Textile Policy in the State which can further facilitate India's Garment Industry.

Speaking about the ensuing partnership, Mr Santosh Katariya, President asserted that the Indian Apparel industry can look at Chhattisgarh with hope for further expansion, recognising the States immense potential. CMAI and its members can play a crucial role in generating employment opportunities in its mega Textile Park.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

REPRESENTATIONS

PRE-BUDGET MEMORANDUM

The Association submitted pre-Budget Memorandum for Garment Sector to the Hon'ble Finance Minister, Finance Secretary, Revenue Secretary, Hon'ble Minister of Textiles. The Points covered in the said Memorandum were Need for Interest Subvention Benefits sfor Domestic Garment Sector, MSMEs in Garment Sector need to be recognised as Secured Creditors for NCLT cases , Extension of PLI Scheme for Garments (PLI-2), Withdrawing 43B 9 (H) Clause of the Income Tax , Duty Free Imports from Bangladesh.

https://infashionbusiness.com/home/news_details/4755/11

<https://apparelresources.com/business-news/trade/budget-2025-textile-apparel-sectors-pre-budget-recommendations/>

<https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/india-budget-2025-26-cmai-urges-policy-support-for-garment-sector-300413-newsdetails.htm?amp=true>

<https://textileinsights.in/cmai-presents-budget-recommendations-to-strengthen-indias-garment-sector/>

<https://www.indian-apparel.com/budget-recommendations-by-cmai-for-garment-sector/>

<https://textilesouthasia.com/2025/01/24/cmai-pre-budget-for-garment-sector/>

Shri Giriraj Singh inaugurated Handloom Conclave – Manthan in New Delhi



THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

The Union Minister of State for External Affairs & Textiles Shri Pabitra Margherita addressed the event and emphasized that Handloom products are living testament of cultural heritage of our country. He also highlighted the importance of rejuvenating Handloom industry as a vibrant sector, which provides fair earnings to attract the younger generation. Secretary/Textiles while addressing the event highlighted that the 'Conclave-Manthan' is a 'Chintan Shivar', which is an effort of Ministry to establish "Samvaad" with stakeholders to address concerns regarding availability of marketing avenues and attrition of youth from Handloom weaving. She also emphasized Upon creating a synergy between modern education and traditional knowledge. Key highlights of the Event: • In the Conclave 03 technical sessions were organized: 1. Support for start-up eco system in Handloom Sector.2. Handloom Marketing Avenues and strategies.3 Modelling Handloom Sector for Young Weavers: Approach and Strategy. The key deliverables of the technical sessions are 1. Focussing on Niche products.2. Attractive packaging as an important value proposition. 3. Promote viable employment opportunities in handloom sector to attract youth.4. Curriculum for training courses to be designed in such a manner that it incorporates soft skills, IT knowledge and presentation skills.5. Customers buy story behind the product, story behind making of product may be highlighted to attract customers.6. To incorporate handloom weaving as a part of formal education.

ENTERTAINMENTS



THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

: 19 :

The 5th Cricket Premium League (CPL) was Organised by the Western Regional Committee under the guidance of the Regional chairman, Mr Kiran Modgi and Mr Sanjay Hatte, Hon Regional Secretary on 11th January 2025 at Pushpa Sports Arena in Pune.

The Event was graced by Mr Santosh Kataria, President, CMAI .

Total 8 Teams participated in the CPL , 6 from Pune , 1 team from Sholapur led by Mr Amit Jain and 1 team from Mumbai led by Mr Prakash Parekh.

This year for first time Western Regional Committee introduced Cricket matches for Women.

Mumbai & Sholapur Teams were in the Final and Sholapur Team Won the CPL 2025 Trophy As a special gesture, 2 Cash prizes were sponsored by Shri Ketanbhai Veera in Memory of his late Father Shri Jayantibhai Veera (Mamaji)

CMAI IN THE MEDIA

Press Releases

The Association issued the following Press Releases which was covered by all Media.

One Industry, One Voice: Garment Trade Associations across India want Group of Ministers (GoM) to abandon proposal to modify GST rates

International Expert on Business and Human Rights interacts with apparel industry on Responsible Business conduct

**Emphasis on 'Profit with Principles' as the approach to responsible business
Interaction was part of Project SU.RE, an initiative of Ministry of Textiles, Reliance Brands Limited, CMAI and UN in India**

CMAI's 80th NGF 2025: India's leading Apparel Fair opens with focus on growth

Budget Recommendations for Garment Sector

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



GUJ INDUSTRIES LOOK TO BUDGET FOR RELIEF

With Union Finance Minister Expected To Give Her Budget Speech On Feb 1, MSMEs In The State Seek Policy Push & Tax Sops

Niyati Parikh & Parag Dave | 158

As Union finance minister Nirmala Sitharaman gears up to put forth her eighth budget as part of the India Budget 2025-26 presentation, the manufacturing industries in Gujarat are looking for some bold industry-friendly announcements. Gujarat's manufacturing and services sectors fared well in the 2024-25 fiscal year and are eyeing measures that will help boost demand, policy interventions that will incentivise manufacturing and service development, and tax relief.

Gujarat's Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector, which forms a key component of

the state's industry landscape, is looking for major relief and amendments to Section 43B(h) of the Income Tax Act, which will aid in resolving key roadblocks in its progress — delayed payments and cash flow. Since different industries follow different business models, many industry players have voiced that the one-size-fits-all approach may not work. Most of the industries have sought income tax cuts to be able to boost cash on hand for consumers. This will boost demand and help companies adjust their cost-to-company structures more optimally.

TIMES DHANDHO

AFTER CUSTOMS DUTY CUT, JEWELLERS MAANGE MORE!

The Union finance minister proposed a decrease in customs duty on gold from 15% to 6% in the Union Budget 2024 — a long-pending demand of the gems and jewellery sector to boost consumption. Despite the rate cut, as geopolitical uncertainties grew, gold prices touched record highs in Oct 2024, zooming to Rs 82,300 per 10g in the Ahmedabad market. After some corrections, gold prices have once again begun climbing upward lately.

The industry now expects a special benefit of 0.5% for importing gold through the India International Bullion Exchange, since this industry is regulated by SEBI, RBI, DGFEx Ministry of finance,



APPAREL MAKERS FOR PRIORITY SECTOR LENDING

The apparel industry in Gujarat is rapidly expanding and taking new strides in the export markets while significantly contributing to generating new jobs. According to members of the Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI), there is a need for interest subvention benefits for the domestic apparel manufacturing sector.

"The apparel manufacturing sector faces considerable financial challenges, due to its high working capital needs. Managing funds for MSMEs in this sector has proven to be a persistent challenge. A government-backed interest subvention scheme is essential for addressing the working capital requirements of the apparel sector. Similar to the existing priority sector lending (PSL) rate for the agriculture sector — a reduced interest rate of 7% per annum, further reduced to 4% for prompt repayment — the garment industry, recognising its critical role as a significant employment generator, should also get the benefits," said Rahul Mehta, chief mentor, CMAI.

Such a mechanism would provide essential relief to the apparel sector, easing their financial constraints, fostering operational stability, and ensuring the continued viability of the sector. The industry has also sought to expand the scope of the production-linked incentive (PLI) scheme in the apparel sector to further help boost exports. According to data by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), apparel exports in India increased by 11.5% from April to Dec 2024 to \$11,316.09 million. "This will enable apparel makers to compete with counterparts globally," Mehta further added.



TEXTILES INDUSTRY SEEKS TO EASE DUTIES ON COTTON

The textiles industry is plagued with volatility in domestic cotton prices, which have been higher than international prices for the past couple of years. As a result, industry players are seeking measures to abolish import duty on cotton. "The removal of import duty on all types of cotton fibre is a key priority for the textiles sector in the upcoming budget. Govt must look at a Cotton Price Stabilization Fund Scheme that will be vital to protect the interest of the industry from price volatility. This is a critical aspect to ensure the availability of raw materials at globally competitive prices, while addressing price volatility, which also impacts production planning," said Ronak Chirpal, a promoter of the Chirpal Group. The Spinners' Association (Gujarat) has made similar demands before gov't. "Short staple cotton has an 11% import duty as of now. In India, cotton production has not increased in the last few years because yield is low. On the other hand, there has been an increase in spinning activities in India. Indian cotton prices are also higher than international prices," said a member of the association.



EDIBLE OIL SECTOR FLOATS IDEA OF DUTY STRUCTURE REFORMS

The edible oils industry is seeking urgent reforms in the GST inverted duty structure (IDS) and customs duty policy to ensure sustainability and competitiveness. Industry players have called for the removal of IDS and customs duty differential. "The domestic refining industry faces pressure due to an insufficient 8.25% duty gap between crude and refined palm oil. This impacts farmers, with oil seeds priced below MSP. A 20% duty differential, agriculture infrastructure development cess (AIDC) on refined oils, and removal of GST refund restrictions are vital to safeguard farmers, boost demand for domestic oilseeds, and ensure a self-reliant edible oil ecosystem," Shah added.



CHEMICALS INDUSTRY URGES GOVT TO AMEND SEZ RULES

The chemicals industry is expecting some key announcements in the budget which may help its growth. Natu Patel, vice-chairman of the FICCI Gujarat State Council, said, "We demand an increase in customs duties to safeguard the local industry. There are huge opportunities in the export market, but competition from China is steep. Hence, the govt should offer better export incentives."

Patel sought an amendment to SEZ rules to ensure that the available infrastructure in these zones is used to meet domestic demand. "Govt should also announce special incentives for innovation, new products, and decarbonisation in the chemicals industry," he said.

Chemexil has demanded that the central govt should focus on increasing exports with various steps. Bhubendra Patel, chairman (Gujarat region) of Chemexil, said, "The



Indian chemicals industry is competing against world standards of various regulatory compliances from many countries. Getting Indian chemical products certified against these regulatory compliances is a big task."

He said a few international laboratories are doing testing for such regulatory compliances at a very high cost. "This exorbitant cost does not enable Indian SMEs to afford the testing charges. So some of the SMEs who are able to manufacture and export regulatory-complimented products are unable to get them certified," said Patel.

To overcome such challenges, India should develop laboratories and common infrastructure, which can test worldwide regulatory compliances at a low cost, he added.

"We suggest that govt sign a mutual recognition agreement with many countries which will avoid mandatory testing with specified labs at a higher cost and save the time of exporters," said Patel.

REDEFINE AFFORDABLE HOUSING: CREDAI

The real estate sector has demanded that the central govt should change the definition of affordable housing. The Confederation of Real Estate Developers' Associations of India (Credai) has demanded that housing prices have increased significantly in the past few years and govt should define affordable housing with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) carpet area and not by cost. Shekhar Patel, national president-elect of Credai, said, "Most Indian households consist of five to six members, including the elderly and children, and their minimum requirement is a 3BHK apartment. The definition of affordable housing was fixed in 2018-19 and since then prices have increased in most cities, so it is not possible to buy a 60sq m or 90sq m home below Rs 45 lakh."

The association demands this definition be changed with price limits for units with areas of 60 sq m in metropolitan cities and 90 sq m in



non-metropolitan cities increased to Rs 90 lakh. "This price limit should be increased by 5% every year," said Patel.

"A project in which 100% of the units are designated as affordable and a maximum of 5% of the FSI area is used for retail shops should be classified as an affordable housing project," Dipak Patel, president, Credai-Gujarat, said. Kartik Soni, director of Swara Group, said, "Govt should reintroduce Section 80B to ensure the growth of affordable housing."

RENEWABLE ENERGY SECTOR BATS FOR LOCAL MANUFACTURING

Gujarat has emerged as India's renewable energy hub. Although manufacturing of solar panels and cell manufacturing has begun, the industry demands better policies. Nitob Shah, a member of the Federation of Solar Manufacturers and Intermediaries and CEO of Aatmanirbhar Solar, said, "Import duty on solar glass was raised by 200% recently in a bid to protect the interests of domestic manufacturers. However, there are not enough makers to meet the growing demand. So, such an increase does not help and for solar companies, makes buying the glass costlier. On the other hand, despite a 27.5% duty, imported solar cells are cheaper than those made domestically. Govt should give incentives to local manufacturers." Kunj Shah, chairman of ASSOCIAM's renewable energy committee, said, "The sector faces shortage of skilled manpower. A long-term strategy is needed to meet the requirement."



INDUSTRY SPEAKS

There is a need to change the definition of affordable housing to achieve the goal of 'Housing for All'. A project in which 100% of the units are designated as affordable and a maximum of 5% of the FSI area is used for retail shops should be classified as an affordable housing project

Dipak Patel | PRESIDENT, CREDAI-GUJARAT

Bangladesh already occupies 43% of India's total apparel imports and continues to grow by 40% per annum. We thus strongly recommend a thorough review of our FTA with Bangladesh to ensure a level playing field for our domestic manufacturers and permit duty-free imports for garments made from Indian fabrics

Rahul Mehta | CHIEF MENTOR, CMAI

Chemical products compliance testing is necessary for exports to many countries, but is very costly. India should develop laboratories and common infrastructure, which can test according to worldwide regulatory compliances at a lower cost for SMEs

Bhubendra Patel | CHAIRMAN (GUJARAT), CHEMEXIL

Bullion refiners have been working on a paper-thin margin of 0.65% for the past few years, this margin should be increased by decreasing the import duty on gold imports. There is a need for the establishment of GST-bonded warehouses and permitting EMIs on jewellery purchases

Prithviraj Kohari | NATIONAL PRESIDENT, INDIA BULLION AND JEWELLERS ASSOCIATION

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:

Garment makers lobby against changing existing GST levies

BENGALURU, DHNS: Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), along with 14 leading garment trade associations from across India passed a resolution for submission to a group of ministers to abandon a proposal to modify goods and services tax (GST) rates in the garment sector, and retain the existing structure of 5% and 12%, the group said in a statement on Friday.

The association cautioned that an increase in the GST will deeply harm industry growth, affordability and employment stability, leading to inflated prices, burdening price-sensitive consumers and slowing demand, especially for festive and wedding-related apparel.

Other key decisions were budget recommendations to boost apparel trade and address industry needs such as a tailored production linked incentive (PLI) scheme for the sector. One of the key issues with the current PLI



structure is its significant investment demand which is more suited for the textile industry, backfiring on garment manufacturers in terms of their operational scale and investment capacity.

Among other demands, introduction of an interest subsidy for the domestic garment sector was also put forth. While this sector does not require heavy capital investment, it requires assistance with interest costs. Despite the lack of incentives, it has shown significant growth, hence, a targeted assistance would further boost its potential.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

APPAREL MAKERS FOR PRIORITY SECTOR LENDING

The apparel industry in Gujarat is rapidly expanding and taking newer strides in the export markets while significantly contributing to generating new jobs. According to members of the Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI), there is a need for interest subvention benefits for the domestic apparel manufacturing sector. "The apparel manufacturing sector faces considerable financial challenges, due to its high working capital needs. Managing funds for MSMEs in this sector has proven to be a persistent challenge. A govt-supported interest subvention scheme is essential for addressing the working capital requirements of the apparel sector. Similar to the existing priority sector lending (PSL) rate for the agriculture sector — a reduced interest rate of 7% per annum, further reduced to 4% for prompt repayment — the garment industry, recognising its critical role as a significant employment generator, should also get the benefits" said Rahul Mehta, chief mentor, CMAI.

Such a mechanism would provide essential relief to the apparel sector, easing their financial constraints, fostering operational stability, and ensuring the continued viability of the sector. The industry has also sought to expand the scope of the production-linked incentive (PLI) scheme-II to the apparel sector to further help boost exports. According to data by the Confed-



eration of Indian Textile Industry (Citi), apparel exports in India increased by 11.5% from April to Dec 2024 to \$11,316.09 million. "This will enable apparel makers to compete with counterparts globally," Mehta further added.



TEXTILES INDUSTRY SEEKS TO EASE DUTIES ON COTTON

The textiles industry is plagued with volatility in domestic cotton prices, which have been higher than international prices for the past couple of years. As a result, industry players are seeking measures to abolish import duty on cotton. "The removal of import duty on all types of cotton fibre is a key priority for the textiles sector in the upcoming budget. Govt must look at a Cotton Price Stabilization Fund Scheme that will be vital to protect the interest of the industry from price volatility. This is a critical aspect to ensure the availability of raw materials at globally competitive prices, while addressing price volatility, which also impacts production planning," said Ronak Chiripal, a promoter of the Chiripal Group. The Spinners' Association (Gujarat) has made similar demands before govt. "Short staple cotton has an 11% import duty as of now. In India, cotton production has not increased in the last few years because yield is low. On the other hand, there has been an increase in spinning activities in India. Indian cotton prices are also higher than international prices," said a member of the association.

नॅशनल गारमेंट फेअरचे उद्घाटन

मुंबई: क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय)च्या ८०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ स्प्रिंग-समर एडिशनचे आयोजन १५ ते १७ जानेवारी २०२५ पर्यंत बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर, मुंबईमध्ये करण्यात आले आहे. याचे उद्घाटन भारतातील आघाडीचे व्हॅल्यू रिटेलर त२ रिटेल लिमिटेडचे श्री राम चंद्र अगरवाल यांनी केले. अवघ्या एका दशकामध्ये भारतातील ११२ शहरांमध्ये १५० पेक्षा जास्त स्टोर्स आणि १० लाख चौरस फीटपेक्षा जास्त रिटेल स्पेस विकसित करून व्ही२ रिटेल लिमिटेड महत्वाकांक्षी विस्तार करत आहे आणि या उद्योगक्षेत्रामध्ये सर्वात वेगवान विस्तार करत आहे. वर्षात दोन वेळा आयोजित केल्या जाणाऱ्या, भारतातील कपडे उद्योगक्षेत्रातील सर्वात मोठा ट्रेड फेअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, नॅशनल गारमेंट फेअरने नावीन्य, सर्जनशीलता आणि शाश्वतता यांचा मिलाप घडवून आणून उद्योगक्षेत्रात सातत्याने नवीन मानके स्थापित केली आहेत. ८० वा नॅशनल गारमेंट फेअर एक प्रभावी सोर्सिंग डेस्टिनेशन म्हणून आपला वारसा पुढे चालवत आहे, ब्रँड आणि रिटेल विक्रेत्यांना धोरणात्मक सहयोग करण्यासाठी, आपल्या ट्रेडी कलेक्शनसोबत भारतीय फॅशनच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी सशक्त बनवत नेटवर्किंगच्या अतुलनीय संधी प्रदान करत आहे.

नेशनल गारमेंट फेअर में पहंचे 21 हजार विजिटर

वरिष्ठ संवाददाता | मुंबई . क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय) की तरफ से आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेअर का समापन 17 जनवरी को संपन्न हुआ। सीएमएआय की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार तीन दिवसीय प्रदर्शनी में 21,500 से अधिक ट्रेड विजिटर शामिल हुए। सीएमएआय अध्यक्ष संतोष कटारिया ने बताया कि अपैरल उद्योग में उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्रांड टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करना जारी रख रहे हैं, मेट्रो शहरों की तुलना में वहां से आने वाली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

सीएमएआई के 80वें नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद

मुंबई। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एक्विजिबीशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकारे ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। भारी संख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेंट दी, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विजिटर भी थे, जिससे मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। 80वें एनजीएफ को मिला जबरदस्त प्रतिसाद और बड़ी मात्रा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अपैरल मार्केट को आकार देने में सीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है, सोर्सिंग, नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अवसरों की खोज के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकारे ने कहा, सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निमाता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार-पत्र

टेक्सटाइल

Postal Regd. No.: Bhilwara/231/2024-2026



1

वर्ष : 13 अंक : 22 प्रकाशित : 16 जनवरी, 2025 गुरुवार Editor : Govind Sharma स्थान : भीलवाड़ा पृष्ठ : 20 मूल्य : 20 रुपये

CMAI's 80th National Garment Fair 2025 was completed successfully

Mumbai: The 80th edition of CMAI's National Garment Fair (NGF) 2025, Spring-Summer edition being held from January 15 to 17, 2025 at Bombay Exhibition Centre, Mumbai was inaugurated by India's leading Value Retailer, Shri Ram Chandra Agarwal, Chairman & Managing Director of V2 Retail Ltd. They are currently on an exciting expansion path which is perhaps the fastest in the industry having 150+ stores across 112 cities in India with more than 10. lac sq. ft. of retail space in just about a decade.

Spanning a remarkable 7 lakh square feet of exhibition space, 80th NGF 2025, features over 1220 apparel brands and 1120 stalls, showcasing the latest Spring-Summer collections across men's, women's, and kids wear. This grand-scale trade fair is exemplary as it fosters invaluable B2B connections,



providing a unique opportunity for industry players to collaborate, expand their reach, and contribute to the dynamic growth of India's domestic retail market.

CMAI Dignitaries present at the inauguration included Mr. Santosh Katariya, President; Mr. Ankur Gadia, Vice President; Mr. Anand Chokshi, Jt. Chairman-NGF; Mr. Naveen Sainani, Hon. General Secretary; Mr. Paresh

Vora, Hon. Treasurer; Mr. Mukesh Jain, Hon. Jt. Gen. Secretary; Mr. Dinesh Nandu, Hon. Jt. Treasurer amongst others.

Speaking about the business prospects at the fair, Mr. Santosh Katariya, President, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI) said, "The 80th edition of NGF opens a significant chapter for the Indian apparel industry as we step into the new year 2025. Despite ongoing challenges, the resilience of our manufacturers and the strength of the domestic retail market gives us greater confidence for the year ahead. NGF has been an essential platform in harnessing this growth, showcasing the latest trends and innovation for the Apparel sector."

Speaking at the Inauguration, Mr. Ram Chandra Agarwal, Chairman & Managing Director, V2 Retail Ltd. stated "NGF is an unparalleled platform for India's apparel industry and there lies immense potential for at least ten Garment manufacturers to break barriers and reach US\$ 1 Bn turnover. It's an opportune time for prospective exhibitors to develop and foster invaluable B2B connections, drive significant business growth and expand their reach to nationwide retailers. Trade fairs have a far-reaching impact on the industry at large, providing a powerful & dynamic space for manufacturers, retailers & designers to connect and collaborate, while setting the stage for continuous evolution of the Indian apparel market."

Speaking about the consumer demand for the upcoming spring-summer season, Mr. Rahul Mehta, Chief Mentor, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), expressed, "Consumers today are more discerning, seeking styles that are as sustainable as they are stylish. The trends at the show depict a notable shift where demand for innovative and latest styles continues to grow. As the industry addresses inventory backlogs from the End-of-Season Sale, it's clear that meeting these elevated expectations will be key to a successful season ahead."

STALL BOOKINGS NOW OPEN!

INDIA'S LARGEST
FABRICS & ACCESSORIES
SOURCING SHOW!

6TH EDITION



21 | 22 | 23
APRIL 2025
BOMBAY EXHIBITION CENTRE
MUMBAI



For more details please contact
Hardik Shah - 9930185699
Vishal Revle - 9004277291

For Booking in Surat Pavilion
Contact
Dr. Ajay Bhattacharya - 9924000899

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us: 

सीएमएआई के 80वें नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद

●● मुंबई /सबुरी टाइम्स

क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

(सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकारे ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। भारी संख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेंट दी, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विजिटर भी थे, जिससे मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। 80वें एनजीएफ को मिला जबरदस्त प्रतिसाद और बड़ी मात्रा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अपैरल मार्केट को आकार देने में सीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है, सोर्सिंग, नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अवसरों की खोज के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकारे ने कहा, “सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न राज्यों से खरीदार और विक्रेता व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने की उम्मीद है।”

उन्होंने आगे कहा, “महाराष्ट्र के पास कपड़ा क्षेत्र के लिए अपना बजट है, और हम अभी भी इसकी योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। हम अतिरिक्त पूरक मांगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भविष्य में नई मांगों भी उठने की उम्मीद है। इनमें से अधिकांश मांगें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्रों के लिए सबसिडी से संबंधित हैं। हम उत्तर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां आत्महत्या की दर अधिक है। इसका समर्थन करने के लिए, हमने ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन और सबसिडी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और कारखाने स्थापित करना है।”

एनजीएफ 2025 के बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अध्यक्ष श्री संतोष



कटारिया ने कहा, प्रदेश के भीतर अपैरल उद्योग में सकारात्मक गति देखी जा रही है, जो खुदरा नेटवर्क के विस्तार और नवीनतम फैशन कलेक्शन की बढ़ती मांग से प्रेरित है। ब्रांडों और रिटेल विक्रेताओं के बीच लगातार सक्रिय सहयोग ने नेशनल गारमेंट फेयर के प्रभाव को काफी मजबूत किया है, जिससे यह व्यवसाय विकास और उद्योग कनेक्शन के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है। मेले की सफलता इस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी का प्रमाण है, जिसमें असाधारण व्यापार हुआ और पर्याप्त ऑर्डर वॉल्यूम दर्ज किए गए हैं। प्रदर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग के लचीलेपन और निरंतर प्रगति को रेखांकित करती है, आगे एक गतिशील और समृद्ध सीजन के लिए मंच तैयार करती है।”

देश के भीतर अपैरल उद्योग की वर्तमान स्थिति के बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के नेशनल गारमेंट फेयर के जॉइंट चेयरमैन श्री आनंद चोकशी ने कहा, “जैसे-जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, अपैरल उद्योग में उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्रांड टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करना जारी रख रहे हैं, मेट्रो शहरों की तुलना में वहां से आने वाली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष, हम सचेत खरीदारी की ओर बढ़ते रुझान को देख रहे हैं, जहां गुणवत्ता, स्थिरता और व्यक्तिगत अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ये विकसित होती प्राथमिकताएं बाजार को नया रूप और विकास को गति दे रही हैं, जिससे अपैरल क्षेत्र आने वाले एक गतिशील और परिवर्तनकारी वर्ष के लिए तैयार हो रहा है।”

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



सीएमएआयच्या १०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ चे उद्घाटन

■ दिनमान प्रतिनिधी

मुंबई। क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय)च्या १०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ स्प्रींग-समर एडिशनचे आयोजन १५ ते १७ जानेवारी २०२५ पर्यंत बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर, मुंबईमध्ये करण्यात आले आहे. याचे उद्घाटन भारतातील आघाडीचे व्हॅल्यू रिटेलर तर रिटेल लिमिटेडचे श्री राम चंद्र अगरवाल यांनी केले. अवघ्या एका दशकामध्ये भारतातील ११२ शहरांमध्ये १५० पेक्षा जास्त स्टोर्स आणि १० लाख चौरस फीटपेक्षा जास्त रिटेल

आगामी स्प्रींग-समर सीझनसाठी ग्राहकांकडून येत असलेल्या मागणीबाबत क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मुख्य सल्लागार श्री राहुल मेहता यांनी सांगितले, "आजचे ग्राहक खूप जास्त समजूतदार आहेत, त्यांना अशी उत्पादने हवीत जी स्टायलिश आणि टिकाऊ देखील असतील. या शोमधील ट्रेंड्स एक उल्लेखनीय परिवर्तन दर्शवतात, ज्यामध्ये नवनवीन स्टार्ईल्सची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

स्पेस विकसित करून व्ही२ रिटेल लिमिटेड विस्तार करत आहे.

महाराष्ट्र सरकार गारमेंट उद्योगने सपोर्ट करणे अशी खातरी अपाई मुंबई, ता. २१ : देशां गारमेंट क्षेत्रे प्रवाहो पलटाता रह्या छे. क्लोथींग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियांना जशाच्या मुजब १० मोनेशनल गारमेंट ईर ताजेतरमां मुंबई खाते त्रश दिवस योजायो હતો જેમાં महाराष्ट्रना टेकस्टाईल प्रधान संजय सावकरे अछाजरी आपी હતી. ગાર્મેન્ટ ઉદ્યોગને સરકાર તરફથી સપોર્ટની ખાતરી તેમણે આપી હતી. ૨૧ હજારથી વધુ લોકો આની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તથા ૧૦૦૦થી વધુ ઉત્પાદકો એક છત્ર હેઠળ આવ્યા હતા.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     



सूरत 12-01-2025

सीएमएआई • 15 हजार बायर्स आ सकते हैं
फैब शो 21 से 23 अप्रैल तक,
250 कपड़ा उत्पादक भाग लेंगे

सिटी रिपोर्टर | सूरत

सूरत क्लॉथिंग मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) 21 से 23 अप्रैल तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में फैब शो आयोजित करेगा। इसमें 250 कपड़ा निर्माता भाग लेंगे, जिनमें से 50 सूरत के होंगे। इस प्रदर्शनी से पहले रोड शो किया गया है। संस्था के संरक्षक राहुल मेहता ने कहा कि यह एक्सपो उद्योगपतियों के कारोबार में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इस प्रदर्शनी में अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, इथियोपिया, हंगकांग, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, नेपाल, रूस,



श्रीलंका, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के प्रदर्शक भाग लेंगे। गुजरात क्षेत्र के चेयरमैन अजय भट्टाचार्य ने कहा कि खरीदारों को एक ही स्थान पर कपड़े और सहायक उपकरण मिल सकेंगे। अनुमान है कि तीन दिवसीय प्रदर्शनी में 15 हजार खरीदार आएंगे।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
 Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
 Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

તાંત્રિકો દ્વારા હાવાનુ જણાવ્યુ ગાલ
જર જમાદાર કિરીટસિંહ જ્યાં
પડી હતી. કરી
દા છે એ વોન્ટેડ ઘરફોડિયો ગુજ:
પ્રીનો હોવાથી કિરીટસિંહે મધ્ય
લઈ તેના વતનના સુરતમાં પણ



માં, આપઘાતના બનાવ અગ
પી પોલીસે અકસ્માત મોતનો
ધી વધુ તપાસ શરૂ કરી હતી.
૧ કરનાર કિંજલે આર્થિક
ણથી આપઘાત કર્યો હોવાનું
છે છતાં પોલીસે સાચુ કારણ
તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરતનાં ૫૦ જેટલા ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ મુંબઈમાં પોતાના ગારમેન્ટ્સનું પ્રમોશન કરશે

મુંબઈ ખાતે યોજનારા ફેબ શોમાં સુરતનાં એકિઝબિટર્સનું પેવેલિયન હશે

સુરત, તા. ૧૧

ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આગામી તા. ૨૧થી ૨૩ એપ્રિલ દરમિયાન મુંબઈનાં નેસ્કો ખાતે આયોજિત થનારા ગારમેન્ટીંગ એક્ષ્પો ફેબ શોમાં સુરતના એકિઝબિટર્સનું એક અલાયદું પેવેલિયન હશે. આ પેવેલિયનમાં સુરતના જ ગારમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ તેમજ ટેક્સ્ટાઈલ ટ્રેડર્સનાં સ્ટોલ્સ હશે.

આજે ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન CMAI તેમજ સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા CMAIનાં આગામી એપ્રિલમાં યોજનારા ઈન્ટરનેશનલ ફેબ શો માટે રોડ શોનું આયોજન સુરતમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટમાં સુરતના જાણીતા ગારમેન્ટ પ્રોડ્યુસર્સ, ફેશન ડિઝાઈનર્સ,

ટેક્સ્ટાઈલ ટ્રેડર્સ તેમજ જાણીતી બ્રાન્ડનાં સંચાલકોને તેડાવવામાં આવ્યા હતા. ચેમ્બરનાં પ્રેસિડેન્ટ વિજય મેવાલાએ જણાવ્યું હતું કે CMAIના ફેબ શોમાં સુરતના

**ક્લોથિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ
એસોસિએશન
ઓફ ઈન્ડિયાએ
એકિઝબિટર્સ માટે
સુરતમાં રોડ શો યોજાયો**

એકિઝબિટર્સનું એક આખું પેવેલિયન હશે જેમાં ૪૦થી ૫૦ જેટલા એકિઝબિટર્સ સુરતથી પોતાની બ્રાન્ડનું પ્રમોશન કરવા માટે પહોંચશે. આ પેવેલિયનનું નામ એસ.જી.સી. સી.આઈ. પેવેલિયન રાખવામાં આવ્યું છે.

CMAIનાં નવીન સૈનાનીએ

જણાવ્યું કે ફેબ શોમાં ભારતના ૨૫૦થી વધુ એકિઝબિટર્સ તેમના ગારમેન્ટ્સનું પ્રમોશન કરશે. ૧૨ હજારથી વધુ ડોમેસ્ટીક અને ઈન્ટરનેશનલ ખરીદારોને આ ઈવેન્ટમાં તેડાવવામાં આવ્યા છે. ૨ લાખ સ્કે. ફૂટ એરિયામાં ફેબ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં એકિઝબિટર્સ અને બાયર્સ વચ્ચે મીટિંગ રાખવામાં આવશે.

CMAI ફેબ શો માટે આજે સુરતમાં યોજાયેલા રોડ શોમાં ઝસ્લેંનાં નવીન સૈનાની, રાહુલ મહેતા, અજોય ભટ્ટાચાર્ય, ચેમ્બર પ્રેસિડેન્ટ વિજય મેવાલા, વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ નિખિલ મદ્રાસી, ફોસ્ટા પ્રેસિડેન્ટ કેલાશ હાકિમ, ગીરધરગોપાલ મુંદડા, મયુર ચેવલી, મયુર ગોળવાલા, બિન્ત્રી ગણેશવાલા, બંદના ભટ્ટાચાર્ય વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

सीएमएआई के नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद



क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकार ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। भारी सख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेंट दी, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विजिटर भी थे, जिससे

मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। 80वें एनजीएफ को मिला जबरदस्त प्रतिसाद और बड़ी मात्रा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अपैरल मार्केट को आकार देने में सीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है, सोर्सिंग, नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अवसरों की खोज के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकार ने कहा, "सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न राज्यों से खरीदार

और विक्रेता व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने की उम्मीद है।" उन्होंने आगे कहा, "महाराष्ट्र के पास कपड़ा क्षेत्र के लिए अपना बजट है, और हम अभी भी इसकी योजना बनाने की प्रक्रिया में हैं। हम अतिरिक्त पूरक मामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भविष्य में नई मांगों भी उठने की उम्मीद है। इनमें से अधिकांश मांगें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्रों के लिए सबसिडी से संबंधित हैं। हम उत्तर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां आत्महत्या की दर अधिक है। इसका समर्थन करने के लिए, हमने ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन और सबसिडी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और कारखाने स्थापित करना है।" एनजीएफ 2025 के बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अध्यक्ष श्री संतोष कटारिया ने कहा, "देश के भीतर अपैरल उद्योग में सकारात्मक गति देखी जा रही है, जो खुदरा नेटवर्क के विस्तार

और नवीनतम फैशन कलेक्शन की बढ़ती मांग से प्रेरित है। ब्रांडों और रिटेल विक्रेताओं के बीच लगातार सक्रिय सहयोग ने नेशनल गारमेंट फेयर के प्रभाव को काफी मजबूत किया है, जिससे यह व्यवसाय विकास और उद्योग कनेक्शन के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है। मेले की सफलता इस अपवर्ड ट्रेजेंडरी का प्रमाण है, जिसमें असाधारण व्यापार हुआ और पर्याप्त ऑर्डर वॉल्यूम दर्ज किए गए हैं। प्रदर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग के लचीलेपन और निरंतर प्रगति को रेखांकित करती है, आगे एक गतिशील और समृद्ध सीजन के लिए मंच तैयार करती है।" देश के भीतर अपैरल उद्योग की वर्तमान स्थिति के बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के नेशनल गारमेंट फेयर के जॉइंट चेयरमैन श्री आनंद चोकशी ने कहा, "जैसे-जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, अपैरल उद्योग में उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्रांड टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करना जारी रख रहे हैं, मेट्रो शहरों की तुलना में वहां से आने वाली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष, हम सचेत खरीदारी की ओर बढ़ते रुझान को देख रहे हैं, जहां गुणवत्ता, स्थिरता और व्यक्तिगत अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ये विकसित होती प्राथमिकताएं बाजार को नया रूप और विकास को गति दे रही हैं, जिससे अपैरल क्षेत्र आने वाले एक गतिशील और परिवर्तनकारी वर्ष के लिए तैयार हो रहा है।"

नेशनल गारमेंट प्रदर्शन

■ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) च्या ८० व्या नेशनल गारमेंट फेयर २०२५ स्प्रिंग-समर एडिशनचे आयोजन गोरेगाव पूर्व येथील मुंबई एक्झिबिशन सेंटरमध्ये करण्यात आले आहे. प्रदर्शनाचे उद्घाटन व्हॅल्यू रिटेलर व्ही-२ रिटेल लिमिटेडचे राम चंद्र अगरवाल यांनी केले. व्ही-२ ने एका दशकामध्ये देशातील ११२ शहरांमध्ये १५० पेक्षा जास्त स्टोअर्स आणि दहा लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त रिटेल स्पेस विकसित केला आहे. हे प्रदर्शन १७ जानेवारीपर्यंत सुरू आहे.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

सीएमएआई के 80वें नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद

मुंबई। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एक्विब्रीशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकार ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

भारी संख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेंट दी, इसमें राष्ट्रीय

और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विज़िटर भी थे, जिससे मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा मंत्री संजय सावकार ने कहा कि सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न राज्यों से खरीदार और विक्रेता व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने



की उम्मीद है।"

एनजीएफ 2025 के बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा, "देश के भीतर अपैरल उद्योग में सकारात्मक गति देखी जा रही है, जो खुदरा नेटवर्क के विस्तार और नवीनतम फैशन कलेक्शन

की बढ़ती मांग से प्रेरित है। ब्रांडों और रिटेल विक्रेताओं के बीच लगातार सक्रिय सहयोग ने नेशनल गारमेंट फेयर के प्रभाव को काफी मजबूत किया है, जिससे यह व्यवसाय विकास और उद्योग कनेक्शन के लिए एक प्रमुख चालक बन गया है।" देश के भीतर अपैरल उद्योग की वर्तमान स्थिति के

बारे में बोलते हुए, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के नेशनल गारमेंट फेयर के जॉइंट चेयरमैन श्री आनंद चोकशी ने कहा, "जैसे-जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, अपैरल उद्योग में उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्रांड टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करना जारी रख रहे हैं, मेट्रो शहरों की तुलना में वहां से आने वाली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष, हम सचेत खरीदारी की ओर बढ़ते रुझान को देख रहे हैं, जहां गुणवत्ता, स्थिरता और व्यक्तिगत अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है।"

फेयर को मिला प्रतिसाद

मुंबई. क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन मुंबई के बॉम्बे एक्विब्रीशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कपड़ा मंत्री संजय सावकार ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विज़िटर भी थे। कपड़ा मंत्री संजय सावकार ने कहा, "सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले 4 महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। खरीदार और विक्रेता भी यहां आए हैं।"

सीएमएआई के 80वें नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद

मुंबई। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का स्प्रिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एक्विब्रीशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकार ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। भारी संख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेंट दी, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेड विज़िटर भी थे, जिससे मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। 80वें एनजीएफ को मिला जबरदस्त प्रतिसाद और बड़ी मात्रा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अपैरल मार्केट को आकार देने में सीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है, सोर्सिंग, नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अवसरों की खोज के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकार ने कहा, सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न राज्यों से खरीदार और विक्रेता व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने की उम्मीद है।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

सीएमएआयच्या नॅशनल गारमेंटचे उद्घाटन

मुंबई : मंत्री संजय सावकार

कलॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय)च्या वतीने मुंबई येथे 3 दिवसीय फेयर आयोजन होत आहे. यावेळी एनजीएफ सेंटर, मुंबईमध्ये कार्यक्रम होत आहे. यावेळी उपस्थित असलेल्या मान्यवर अशाप्रकारचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.

भारतातील 80वा नॅशनल गारमेंट फेयर मुंबई येथे आयोजित होत आहे. यावेळी एनजीएफ सेंटर, मुंबई येथे कार्यक्रम होत आहे.



उद्घाटन करत असलेल्या मान्यवरांच्या यादीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य सरकारचे मंत्री संजय सावकार, एनजीएफचे अध्यक्ष अशोक शिंदे, एनजीएफचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर मान्यवरांचा समावेश आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले शुभेच्छा व्यक्त करताना म्हणले की, 'सीएमएआयच्या वतीने आयोजित होणाऱ्या नॅशनल गारमेंट फेयरमुळे देशातील वस्त्रोद्योगाचा विकास होईल आणि देशातील वस्त्रोद्योगाचा विकास होईल. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले शुभेच्छा व्यक्त करताना म्हणले की, 'सीएमएआयच्या वतीने आयोजित होणाऱ्या नॅशनल गारमेंट फेयरमुळे देशातील वस्त्रोद्योगाचा विकास होईल आणि देशातील वस्त्रोद्योगाचा विकास होईल.

फेयर को मिला प्रतिसाद

मुंबई. कलॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय) द्वारा आयोजित 80वा नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का सर्पिंग-समर एडिशन मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. कपड़ा मंत्री संजय सावकारे ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेडर भी थे. कपड़ा मंत्री संजय सावकारे ने कहा, "सीएमएआय द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले 4 महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं. खरीदार और विक्रेता भी यहां आए हैं. और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने की उम्मीद है."

सीएमएआई के 80वें नेशनल गारमेंट फेयर को मिला जबरदस्त प्रतिसाद

मुंबई. कलॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय) द्वारा आयोजित 80वां नेशनल गारमेंट फेयर (एनजीएफ) का सर्पिंग-समर एडिशन 15 से 17 जनवरी, 2025 तक मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री संजय सावकारे ने अपैरल उद्योग को प्रोत्साहित करने नेशनल गारमेंट फेयर का दौरा किया और नीति पर समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। भारी संख्या में लोगों ने नेशनल गारमेंट फेयर को भेट दी, इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के रिटेल विक्रेताओं, वितरकों और होलसेलर्स सहित 21500 से अधिक ट्रेडर विजिटर भी थे, जिससे मजबूत व्यापारिक जुड़ाव हुआ, जो आने वाले समय में एक आशाजनक रिटेल सीजन का संकेत देता है। 80वें एनजीएफ को मिला जबरदस्त प्रतिसाद और बड़ी मात्रा में व्यावसायिक गतिविधि भारतीय अपैरल मार्केट को आकार देने में सीएमएआई की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करती है, सोर्सिंग, नेटवर्किंग, सहयोग और विकास के अवसरों की खोज के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा मंत्री संजय सावकारे ने कहा, "सीएमएआई द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय ट्रेड फेयर में, पूरे

भारत से ब्रांडेड कपड़ों के निर्माता अगले चार महीनों के लिए व्यवसाय विकसित करने के लिए एकत्र हुए हैं। विभिन्न राज्यों से खरीदार और विक्रेता व्यापार करने के लिए यहां आए हैं, और इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण कारोबार होने की उम्मीद है। 'एनजीएफ 2025 के बारे में बोलते हुए, कलॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा, 'देश के भीतर अपैरल उद्योग में सकारात्मक गति देखी जा रही है, जो खुदरा नेटवर्क के विस्तार और नवीनतम फैशन कलेक्शन की बढ़ती मांग से प्रेरित है। ब्रांडों और रिटेल विक्रेताओं के बीच लगातार सक्रिय सहयोग ने नेशनल गारमेंट फेयर के प्रभाव को मजबूत किया है, ज उद्योग कनेक्शन के लिए एक प्रमुख चालक बन

गया है। मेले की सफलता इस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी का प्रमाण है, जिसमें असाधारण व्यापार हुआ और पर्याप्त ऑर्डर वॉल्यूम दर्ज किए गए हैं। कलॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) के नेशनल गारमेंट फेयर के जॉइंट चेयरमैन आनंद चोकशी ने कहा, "जैसे-जैसे हम 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, अपैरल उद्योग में उपभोक्ता मांग में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्रांड टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करना जारी रख रहे हैं, मेट्रो शहरों की तुलना में वहां से आने वाली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष, हम सचेत खरीदारी की ओर बढ़ते रुझान को देख रहे हैं, जहां गुणवत्ता, स्थिरता और व्यक्तिगत अनुभव को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है।"

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

International Expert on Business & Human Rights interacts with Apparel Industry on Responsible Business Conduct



Mumbai: The United Nations in India this week convened an interactive roundtable on Responsible Business Conduct in the Textile and Apparel sector with an international expert on business and human rights and representatives from the apparel industry and UN agencies in India.

The roundtable focused on Indian industry's leadership in driving sustainability in responsible business and its readiness to comply with national and global regulatory changes and due diligence processes.

Responsible business practices help industry to manage environmental risks, strengthen worker trust, and help industry stay ahead of consumer and regulatory expectations.

Professor Surya Deva of Macquarie University spoke about the need for industry to look at an agenda of profit with principles and

the crucial role that businesses play towards communities, environment and the wider planet. He gave an overview of the changing international regulatory landscape and the impact



on Indian businesses, given the interconnectedness of global supply chains.

"I strongly believe that business leadership must adapt to this transformation," Professor Deva said. "Businesses are here to make profit and if they make profit, they promote human dignity and development.

They provide employment and fair wages, contributing to inclusive growth. But the Business and Human Rights agenda cannot be one-size-fits-all.

This is where UN agencies in India can support with pathways that help businesses become responsible."

Representatives from the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), clothing brands including Tata Trent, Reliance Brands, Peppermint, Spykar, Blackberry, Bonsoir, Fritzberg and La Romani, Lacoste, and exporter Matrix Clothing shared their experience and expertise on driving sustainability in their operations and value chains, as well as challenges related to compliance, especially in the Micro Small Medium Enterprise (MSME) sector.

Mr. Rahul Mehta, Chief Mentor, Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), said, "There is awareness about sustainability and human rights in businesses, even in small manufacturers.

What we need to do is to get the concepts out of seminar rooms and bring them to the real world. It will be difficult and will take time. But we are moving in that direction.

We are showing the industry that we can adopt these practices and still stay profitable."

Presenting best practices from Indian industry, Sanjay Rastogi of Tata Trent provided an overview of how they have embedded human rights into their business, including the value chain, frameworks and assurance mechanisms.

UN Resident Coordinator in India Shombi Sharp underlined the commitment of UN agencies in India towards mainstreaming sustainability and circularity in the textile industry.

He said: "Responsible business isn't just a goal – it's a strategy – for enterprise resilience, value creation and success in an evolving global market.

The UN team in India is already engaging significantly with the textile and apparel sectors, but so much more we can do together, with industry stakeholders such as CMAI."

The roundtable was part Project SU.RE or Sustainable Resolution, an initiative of the Ministry of Textiles, Reliance Brands Limited, CMAI and UN in India.

The project represents the Indian apparel industry's largest voluntary commitment to sustainability.

This collaboration not only empowers signatories to transform into sustainable brands, but through sharing of best practices, it seeks to reduce the footprint of the sector, both locally and globally.

Aside from his academic work, Professor Deva is also the UN Special Rapporteur on the right to development. He is currently in India in his personal capacity.

सीएमएआयच्या ८०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ चे उदघाटन



प्रतिनिधी

■ मुंबई

क्लोथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय)च्या ८०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ सिंग्रॅम-समर एडिशनचे आयोजन १५ ते १७ जानेवारी २०२५ पर्यंत बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर, मुंबईमध्ये करण्यात आले आहे. याचे उदघाटन भारतातील आघाडीचे व्हॅल्यू रिटेलर व २ रिटेल लिमिटेडचे श्री राम चंद्र अगरवाल यांनी केले. अवघ्या एका दशकांमध्ये भारतातील ११२ शहरांमध्ये १५० पेक्षा जास्त स्टोर्स आणि १० लाख चौरस फीटपेक्षा जास्त रिटेल स्पेस विकसित करून व्ही२ रिटेल लिमिटेड महत्वाकांक्षी विस्तार करत आहे आणि या उद्योगक्षेत्रांमध्ये सर्वात वेगवान विस्तार करत आहे.

७ लाख चौरस फीट जागेमध्ये शानदार बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ८०व्या नॅशनल गारमेंट फेअर २०२५ मध्ये १२२० पेक्षा जास्त कपड्यांचे ब्रँड आणि ११२० स्टॉल्स आहेत, याठिकाणी पुरुष, महिला व मुलांच्या कपड्यांची सर्वात नवीन, सिंग्रॅम-समर कलेक्शन्स प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. हा भव्य ट्रेड फेअर महत्वपूर्ण बी२बी कनेक्शन्सना प्रोत्साहन देतो, उदघाटन प्रसंगी उपस्थित असलेल्या सीएमएआयच्या मान्यवरांमध्ये अध्यक्ष संतोष कटारिया; उपाध्यक्ष अंकुर गादिया; संयुक्त अध्यक्ष - नॅशनल गारमेंट फेअर, आनंद चोकशी; महासचिव नवीन सैनानी; कोषाध्यक्ष परेश वोरा; संयुक्त महासचिव मुकेश जैन; संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री दिनेश नंदू यांचा समावेश होता.

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

1 से 15 फरवरी, 2025

टेक्सटाइल मिरर

Corporate

छत्तीसगढ़ सरकार ने क्षेत्र में भारत के परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'सीएमएआई' के साथ हाथ मिलाया

मुंबई/ भारत के परिधान और वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वस्त्र निर्माता संघ 'सीएमएआई' के साथ भागीदार राज्य के रूप में भागीदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय परिधान उद्योग में विकास, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की मजबूत वस्त्र नीति का लाभ उठाना है।



सीएमएआई के अध्यक्ष संतोष कटारिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय महासचिव और फैंब शो के अध्यक्ष श्री नवीन सेनानी, मुख्य सलाहकार श्री राहुल मेहता और वरिष्ठ निदेशक श्री अनुराग धूत के साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित मुंबई में एक रोड शो में भाग लिया। रोड शो के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई और वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ एक बंद कमरे में बैठक में भाग लिया।

चर्चा के दौरान, सीएमएआई की गतिविधियों में राज्य को भागीदार राज्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। यह भागीदारी राज्य की प्रगतिशील वस्त्र नीति के अनुरूप वस्त्र और परिधान विनिर्माण के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

आगामी साझेदारी के बारे में बोलते हुए, अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा कि भारतीय परिधान उद्योग छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए आगे विस्तार की

उम्मीद से देख सकता है। सीएमएआई और इसके सदस्य राज्य के मेगा टेक्सटाइल पार्क में विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सीएमएआई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहयोग से उद्योग के अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा, मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा तथा राज्य को भारतीय परिधान और वस्त्र क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में राज्य की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए गुरुवार, 23 जनवरी को मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन किया था। इस रोड शो में अग्रणी औद्योगिक समूहों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us: [f](#) [ig](#) [yt](#) [tw](#) [in](#)

<https://www.5dariyanews.com/news/449339-Government-of-Chhattisgarh-Joins-Hands-with-CMAI-To-Propel-Indias-Apparel-Industry-In-The-Region>

<https://textilesouthasia.com/2025/01/25/chhattisgarh-joins-hands-with-cmai/>

<https://www.thehitavada.com/Encyc/2025/1/24/CG-paves-way-for-FDI.html>

<https://www.businessworld.in/article/chhattisgarh-paves-way-for-fdi-attracts-rs-6000-crore-investment-proposal-at-investor-connect-meet-in-mumbai-545956>

<https://egov.eletsonline.com/2025/01/chhattisgarh-attracts-%E2%82%B96000-crore-investment-at-mumbai-investor-meet/>

<https://www.apparelviews.com/government-of-chhattisgarh-joins-hands-with-cmai-to-propel-indias-apparel-industry-in-the-region>

<https://www.indian-apparel.com/chhattisgarh-government-joins-hands-with-cmai-to-propel-indias-apparel-industry-in-the-region/>

<https://newsriveting.com/chhattisgarh-receives-investment-proposals-worth-rs-6000-crore-in-mumbai-meet/>

<https://mtinews.in/chhattisgarh-pave-way-for-fdi-attracts-rs-6000-crore-investment-proposal-at-investor-connect-meet-in-mumbai/>

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/state-attracts-6000-cr-investment-at-investors-connect-meet-in-mum/articleshow/117497341.cms>

<https://www.freepressjournal.in/india/chhattisgarh-secures-6000-crore-investment-proposals-at-investor-connect-meet-in-mumbai>

<https://in.apparelresources.com/business-news/manufacturing/chhattisgarh-government-makes-moves-boost-indias-apparel-industry/>

<https://egov.eletsonline.com/2025/01/chhattisgarh-secures-%E2%82%B96000-crore-investments-at-mumbai-meet-advances-fdi-prospects/>

<https://www.screenprintindia.com/government-of-chhattisgarh-joins-hands-with-cmai-to-propel-indias-apparel-industry-in-the-region/>

<https://www.outlookindia.com/announcements/chhattisgarh-pave-way-for-fdi-attracts-rs-6000-crore-investment-proposal-at-investor-connect-meet-in-mumbai>

<https://textilespinning.in/industry-update/chhattisgarh-partners-with-cmai-to-boost-indias-apparel-industry>

https://www.business-standard.com/india-news/chhattisgarh-welcomes-fdi-for-the-first-time-at-mumbai-investor-meet-125012400432_1.html

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/state-attracts-6000-cr-investment-at-investors-connect-meet-in-mum/articleshow/117497341.cms>

<https://www.dfupublications.com/news/apparel/cmai-s-key-budget-recommendations-to-boost-india-s-apparel-industry>

<https://news.webindia123.com/news/Articles/India/20250124/4279912.html>

<https://fashionvaluechain.com/chhattisgarh-govt-partners-with-cmai-to-boost-apparel-sector/>

<https://mtinews.in/chhattisgarh-pave-way-for-fdi-attracts-rs-6000-crore-investment-proposal-at-investor-connect-meet-in-mumbai/>

<https://www.textilepost.in/2025/01/India-eases-export-obligation-EPCG-textiles.html>

https://www.textilepost.in/2025/01/Vimala-Fab-introduced-new-designs_01030111066.html

<https://www.fibre2fashion.com/interviews/face2face/cmai/rahul-mehta/14056/>

<https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/industry-divided-over-45-day-payment-rule-ahead-of-budget-2025/articleshow/117728102.cms?from=mdr>

Date	Subject	Particulars
Circulars (Email, Website & WhatsApp to All Members)		
20th January 2025	Cir No. 33 / M-3 / 2024	Cir No. 33 / M-3 / 2024 – ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION FOR THE MONTH OF DECEMBER 2024
Social Media Posts (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp & YouTube)		
1st January 2025	CMAI POST	WISHING YOU ALL A HAPPY & PROSPEROUS 2025
2nd January 2025	5TH FAB SHOW	5TH FAB SHOW (Fabrics, Accessories & Beyond Show) - STALL BOOKING NOW OPEN!
2nd January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
3rd January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
4th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
5th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	10 Days to go!
6th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
7th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
8th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
8th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	7 Days to go!
9th January 2025	CMAI POST	CMAI organised a meeting of all the leading Trade Associations connected with the Domestic Garment Sector.
9th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West, Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

10th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	5 Days to go!
10th January 2025	CMAI POST	India's first AI and EI driven Fashion Forecasting platform - VisioNxt: Trend Insight and Forecasting Lab by NIFT
10th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
11th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
11th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	VISIT HALL GRANDE TO MEET THESE KIDSWEAR BRANDS
12th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
12th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Categories and their Respective Halls
12th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	3 Days to go!
13th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	2 Days to go!
13th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Post
13th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	VISIT HALL GRANDE TO MEET THESE KIDSWEAR BRANDS
13th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Inauguration by Shri. Ram Chandra Agarwal
14th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	INTERACTIVE EXHIBITION GUIDE FOR ALL THE VISITORS & EXHIBITORS
14th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	1 Day to go!
14th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Shri Sanjay Savkare, Hon. Minister of Textiles, Govt of Maharashtra as Honoured Guest
14th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Free To & Fro Shuttle Services for Visitors: Goregaon East Railway Station - Bombay Exhibition Centre
14th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	VISIT HALL GRANDE TO MEET THESE KIDSWEAR BRANDS
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Watch the Inauguration of 80th National Garment Fair
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	80th National Garment Fair - Now Open
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Day 1 Begins
15th January 2025	C.N.A POST	Caution List as on 31.12.2024
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Free To & Fro Shuttle Services for Visitors: Goregaon East Railway Station - Bombay Exhibition Centre
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Busy Start to Day 1 of the 80th National Garment Fair
15th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	End of Successful Day - 1
16th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	CMAI WELCOMES SHRI. SANJAY SAVKARE, HON'BLE MINISTER OF TEXTILES, GOVT. OF MAHARASHTRA TO THE 80TH NATIONAL GARMENT FAIR
16th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Day 2 Begins

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     

16th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	End of Successful Day - 2
16th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
17th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Last Day Today
17th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
17th January 2025	CMAI ACHIEVERS CLUB	ACHIEVERS CLUB GUEST SPEAKER - VISHAL TRIVEDI VIDEO
17th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	THANK YOU TO ALL EXHIBITORS & VISITORS FOR MAKING THE 80TH NATIONAL GARMENT FAIR A GRAND SUCCESS POST
17th January 2025	CMAI POST	Earlier this week, SU.RE hosted an interactive roundtable on Responsible Business Conduct
21st January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
22nd January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
22nd January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	THANK YOU TO ALL EXHIBITORS & VISITORS FOR MAKING THE 80TH NATIONAL GARMENT FAIR A GRAND SUCCESS VIDEO
23rd January 2025	CMAI POST	Government of Chhattisgarh to join hands with CMAI as a Partner State
24th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
26th January 2025	CMAI POST	Republic Day Post
28th January 2025	5TH FAB SHOW	5th FAB Show (Fabrics, Accessories & Beyond Show) - India's Largest Fabrics & Accessories Sourcing Show
28th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
29th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
30th January 2025	80TH NATIONAL GARMENT FAIR	Exhibitor Video bites
Weekly Newsletter (Email, WhatsApp & Website)		
6th January 2025	eNews Vol. 13 No. 52	Business News related to Domestic and International Garment Industry for the period prior to 6th January 2025
13th January 2025	eNews Vol. 13 No. 53	Business News related to Domestic and International Garment Industry for the period prior to 13th January 2025
20th January 2025	eNews Vol. 13 No. 54	Business News related to Domestic and International Garment Industry for the period prior to 20th January 2025
27th January 2025	eNews Vol. 13 No. 55	Business News related to Domestic and International Garment Industry for the period prior to 27th January 2025

THE CLOTHING MANUFACTURERS ASSOCIATION OF INDIA

901, Naman Midtown, A Wing, Behind Kamgar Kala Kendra, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi West,
Mumbai 400 013 • Tel : +22-44750909 • Email : info@cmai.in • Website : www.cmai.in
Bengaluru • New Delhi • Pune • Surat

Follow us:     